

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, लोगों को वसंत और गर्मी के लिए पार्कों और रेक्रिएशन की नौकरियों और वालंटियर भूमिकाओं पर रख रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 मार्च, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के पास, पार्ट-टाइम नौकरी ढूंढने वालों के लिए, पूरी सिटी में पार्कों और रेक्रिएशन की नौकरियों और वालंटियर भूमिकाओं के, कई रोमांचक अवसर उपलब्ध हैं।

ब्रैम्पटन रेक्रिएशन

ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) में, इस वसंत और गर्मी में, एक्वाटिक्स, कैम्पस, कस्टमर सर्विस, फैसिलिटी ऑपरेशंस आदि में कई तरह के पद उपलब्ध हैं। कम्युनिटी-अनुकूलित परिवेश में सहायक टीम के लिए काम करने का आनंद लें और कई तरह के लाभ पाएं, जैसे फ्लेक्सिबल शेड्यूल, भुगतान वाली ट्रेनिंग, कौशल विकास और तरक्की करने के अवसर। साथ ही, छूट वाली मेम्बरशिप्स तक पहुंच और ऐसा अनुभव, जो रिज्युमे पर शानदार दिखाई देता है।

उपलब्ध अवसरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और 9 अप्रैल को लगने वाले नौकरी मेले में सिटी के स्टाफ से बातचीत करें। विवरणों और आवेदन करने के लिए, www.brampton.ca/rec-jobs पर जाएं।

ब्रैम्पटन पार्क्स मेंटेनेंस एंड फोरेस्ट्री

ब्रैम्पटन पार्क्स मेंटेनेंस एंड फोरेस्ट्री (Brampton Parks Maintenance and Forestry) में, इस वसंत, गर्मी और पतझड़ में, फोरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेमेटरी, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रिक्ट मेंटेनेंस में, कई प्रकार के पार्ट-टाइम और अस्थायी पद उपलब्ध हैं।

सहायक टीम के साथ काम करें, आउटडोर जगहों का आनंद लें और सीजनल लेबरर (Seasonal Labourer), पार्क्स कीपर (Parks Keeper), माली (Gardener), आर्बोरिस्ट (Arborist) के तौर पर पदों के द्वारा सिटी में अपने कौशलों का प्रयोग करें। विवरणों और आवेदन करने के लिए, www.brampton.ca/employment पर जाएं।

वालंटियर अवसर

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कई विभागों के लिए वालंटियर खोज रही है, जिनमें शामिल हैं, ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज (Brampton Animal Services), ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office), ब्रैम्पटन रेक्रिएशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स (Performing Arts)। जिनकी उम्र 14 वर्ष और इससे अधिक है, वे, www.brampton.ca/volunteers पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।

हवाले

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और हम, हमारी कम्युनिटी में नौकरियां पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने, पार्को और रेक्रिएशन के लिए, 2022 की वसंत और गर्मी में नौकरियों पर रखने का हमारा अभियान शुरू किया है। यदि आप नौकरी या वालंटियर के तौर पर काम खोज रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि हमारे नए खाली पदों को ब्राउज करें।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन, रहने, काम करने और खेलने के लिए शानदार जगह है। हमारे पार्क्स या रेक्रिएशन विभागों की सहायक टीम का हिस्सा बनें, बहुमूल्य कौशल और अनुभव प्राप्त करें और हमारे 2022 के अवसरों के द्वारा, सिटी के साथ शानदार भूमिका पाएं।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हमारे पास, वसंत और गर्मी के लिए, ब्रैम्पटन पार्क्स एंड रेक्रिएशन में कई तरह के पद उपलब्ध हैं। हमारे पास वालंटियर्स के लिए भी अवसर हैं। हमारे शहर को सेहतमंद, सक्रिय और सुरक्षित रखने के लिए, सिटी के साथ किसी भी भूमिका के लिए आवेदन करें।”

- *शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उस शहर का हिस्सा बनने वाली एक शानदार टीम है, जो विविध और तेज़ी से बढ़ने वाली कम्युनिटी को सेवा देता है। हम इस वसंत और गर्मी और पूरा वर्ष, सफल आवेदकों की भूमिकाओं के लिए उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम सी. ए.ओ., सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca